



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

2 माघ 1937 (श10)  
(सं0 पटना 72) पटना, शुक्रवार, 22 जनवरी 2016

---

सं0मं0-02/स्था0-10-03/2016-66  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प  
19 जनवरी 2016

बिहार राज्य के चतुर्दिक विकास के लिए सभी विकासार्थक पहलुओं से संबंधित व्यापक नीति निर्धारण एवं पूर्व से चले आ रहे विकासशील कार्यक्रमों के साथ सुशासन के कार्यक्रमों 2015-2020 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मुख्यमंत्री को परामर्श देने के लिए “मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम-कार्यान्वयन” का एक पद सृजित किया जाता है।

02. मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम-कार्यान्वयन की नियुक्ति के पश्चात् उनके वेतन एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण मुख्यमंत्री के अनुमोदन से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

03. मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम-कार्यान्वयन का प्रशासी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ब्रजेश मेहरोत्रा,  
सरकार के प्रधान सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 72-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>